



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927

No. 52]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 59(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 में,—

“(क) नियम 9 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु 13 फरवरी, 2006 को या उसके पश्चात् खोले गए खातों में की गई जमाओं पर कोई बोनस संदत्त नहीं किया जाएगा।”;

(ख) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“10. खाते का समय पूर्व बन्द किया जाना.—नियम 5 के उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जमाकर्ता द्वारा इस बाबत आवेदन किए जाने पर, उसे जमा वापस लेने और ऐसा खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी समय इस शर्त के अधीन रहते हुए खाता बंद करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी कि—

(i) यदि खाता ऐसे खाते के खोलने के तीन वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले बंद किया जाता है तो जमा के दो प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती कर ली जाएगी और शेष रकम उसे संदत्त कर दी जाएगी, और

(ii) यदि खाता ऐसे खाते के खोलने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बंद किया जाता है तो जमा के एक प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती कर ली जाएगी और शेष रकम जमाकर्ता को संदत्त कर दी जाएगी।”।”

[फा. सं. 2/2/2006-एनएस-II]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

सं. सा.का.नि. 805(अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सं. सा.का.नि. 46(अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सं. सा.का.नि. 581(अ), तारीख 12 सितम्बर, 1991, सं. सा.का.नि. 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सं. सा.का.नि. 390(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सं. सा.का.नि. 585(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1993, सं. सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सं. सा.का.नि. 45(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सं. सा.का.नि. 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2000, सं. सा.का.नि. 613(अ), तारीख 18 जुलाई, 2000, सं. सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च,

2001 और सं. सा.का.नि. 161(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सं. सा.का.नि. 350(अ), तारीख 10 मई, 2002, सं. सा.का.नि. 176(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सं. सा.का.नि. 758(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2003 और सं. सा.का.नि. 288(अ), तारीख 13 मई, 2005 ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2006

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987,—

“(a) in rule 9, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that no bonus shall be paid on the deposits made in the accounts opened on or after the 13th day of February, 2006.”

(b) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :—

“10. Premature closure of account.— Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 5, on an application made by the depositor in this regard, he may be permitted to withdraw the deposit and close the account any time after the expiry of a period of one year from the date of opening of such account, subject to the condition that :

(i) if the account is closed on or before expiry of three years of opening of such account, an amount equal to two per cent of the deposit shall be deducted and remainder paid to him, and

(ii) if the account is closed after expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to one per cent, of the deposit shall be deducted and remainder paid to the depositor.”

[F. No. 2/2006-NS. II]

P. C. SINGH, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 701(E), dated the 10th August, 1987 and subsequently amended *vide* G.S.R. 805(E), dated the 21st July, 1988, G.S.R. 46(E), dated the 20th January, 1989, G.S.R. 581(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 430(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 390(E), dated the 29th April, 1993, G.S.R. 585(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 45(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2000, G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000, G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 350(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 758(E), dated the 23rd September, 2003 and G.S.R. 288(E), dated the 13th May, 2005.